



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 332] नई दिल्ली, शनिवार, अश्विन 30, 1977/आश्विन 30, 1899

No. 332] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 22, 1977/ASVINA 30, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October 1977

G.S.R. 651(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) at pages 1919 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (1) under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. GSR 624(E) dated 29th September, 1977, inviting comments, objections/suggestions from the persons likely to be affected thereby till the 9th October, 1977;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 29th September, 1977,

And whereas objections/suggestions received from the public on the said draft notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely:—

#### Rules

1 (i) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Fourth Amendment) Rules, 1977.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955,—

(i) After rule 42(N), the following shall be inserted, namely:—

“(O) Every package containing an admixture of palmolein with groundnut oil shall carry the following label, namely.—

BLEND OF PALMOLEIN AND GROUNDNUT OIL	
PALMOLEIN ... ..	Percent
GROUNDNUT OIL . . . . .	Percent

(ii) In rule 44, after the existing proviso, the following shall be inserted, namely:—

“Provided also that the prohibition in clause (e) shall remain inoperative for a period of three months from the date of commencement of the Prevention of Food Adulteration (Fourth Amendment) Rules, 1977 in respect of admixture of palmolein with groundnut oil, where,—

(i) the proportion of groundnut oil in the admixture is not less than ten percent by weight;

(ii) the admixture is processed and sold by the Department of Civil Supplies, Government of India or their authorised agents, and

(iii) the palmolein and the groundnut oil in the admixture conform to the specifications laid down in the rules.”

[No. P. 15014/8/77-PH(F&N)/PFA]

N. N. VOHRA, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1977

सा० का० नि० 651 (अ).—खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए कठिपय नियमों का प्रारूप भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की तारीख 29-9-77 को अधिसूचना संख्यांक सा० का० नि० 624 (अ) में भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) के पृष्ठ 1920 पर प्रकाशित किया गया था और उन व्यक्तियों से जिनके उन नियमों से प्रभावित होने की संभावना थी टिप्पणियाँ, आपत्तियाँ, सुझाव 9 अक्टूबर, 1977 तक मांगे गये थे ;

और उक्त राजपत्र 29 सितम्बर, 1977 को जनता को उपलब्ध कर दिया गया था ;

और उक्त अधिसूचना के प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श कर लेने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

### नियम

1. (i) इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1977 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य अपमिश्रण नियम, 1955 में,—

(i) नियम 42 (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ण) मूंगफली तेल के साथ पामोलीन तेल के मिश्रण के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाएगा, अर्थात् :—

पामोलीन और मूंगफली के तेल का मिश्रण	
पामोलीन.....	प्रतिशत
मूंगफली तेल.....	प्रतिशत

(ii) नियम 44 में विद्यमान परन्तुको के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“परन्तु यह भी कि मूंगफली के तेल के साथ पामोलीन के मिश्रण के संबंध में खाद्य अपमिश्रण निवारण (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1977 के प्रारम्भ की तारीख से तीन महीने की अवधि तक खण्ड (ड) का प्रतिषेध अप्रवर्तनीय रहेगा, यदि—

(i) मिश्रण में मूंगफली के तेल का भाग भार के दस प्रतिशत से अन्यून नहीं है ;

(ii) मिश्रण नागरिक पूर्ति विभाग, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा प्रसंस्कृत किया और बेचा जाता है, और

(iii) मिश्रण में पामोलीन और मूंगफली का तेल इन नियमों में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप है।”

[सं० पी० 15014/8/77-पीएच(एफ एण्ड सन)/पी एफ ए]

एन० एन० वोहरा, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

